



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 आषाढ़ 1945 (श10)

(सं0 पटना 553) पटना, वृहस्पतिवार, 6 जुलाई 2023

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

6 जुलाई 2023

सं0 14/एम 7-279/09 (अंश) 1195—बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1976 की धारा-30 में प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर का 2020-23, 2021-24, 2022-25, 2020-22, 2021-23 तथा 2022-24 शैक्षणिक सत्रों के दौरान परीक्षा के परिणामों की घोषणा निम्न तालिका के अनुसार करने का आदेश देती है :-

मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर				
क्रं सं0	विषय/कोर्स का नाम	सत्र	परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि	परीक्षाफल घोषित करने की अंतिम तिथि
1	स्नातक पार्ट -III	2020-23	25.07.2023	25.09.2023
2	स्नातक पार्ट- II	2021-24	21.07.2023	21.09.2023
3	स्नातक पार्ट- I	2022-25	21.08.2023	21.10.2023
4	स्नातकोत्तर सेमेस्टर- IV	2020-22	25.07.2023	25.09.2023
5	स्नातकोत्तर सेमेस्टर- II	2021-23	30.07.2023	30.09.2023
6	स्नातकोत्तर सेमेस्टर- III	2021-23	30.09.2023	30.11.2023
7	स्नातकोत्तर सेमेस्टर- IV	2021-23	10.12.2023	10.02.2024
8	स्नातकोत्तर सेमेस्टर- I	2022-24	30.09.2023	30.11.2023
9	स्नातकोत्तर सेमेस्टर- II	2022-24	10.12.2023	10.02.2024

2. उक्त विश्वविद्यालय उक्त तालिका के अनुसार परीक्षा आयोजित करेगी। साथ ही निर्धारित समय से पूर्व परिणामों की घोषणा करेगी।

3. उक्त के अनुसार विश्वविद्यालयों एवं उसके अंगीभूत/संबद्ध महाविद्यालयों के सभी पदाधिकारी, कर्मी, वीक्षक तथा परीक्षा से संबंध रखनेवाले सभी व्यक्ति भारतीय दंड विधान 1860 के तहत लोक सेवक समझे जायेंगे तथा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

4. उपरोक्त कार्यक्रमानुसार विश्वविद्यालयों एवं उसके अंगीभूत/संबद्ध महाविद्यालय अपना पाठ्यक्रम पूरा करेंगे तथा आवश्यकतानुसार अवकाश/छूटिट्यों के दिनों में भी विशेष वर्ग की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
5. एकैडमिक कैलेंडर का शत-प्रतिशत अनुपालन करने एवं शैक्षणिक सत्र को नियमित करने हेतु आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम एवं परीक्षा तालिका को कंडेन्स (Condense) किया जा सकता है।
6. कोर्स पूरा करने हेतु विश्वविद्यालय में अतिरिक्त कक्षाएँ आयोजित की जाएंगी और इस हेतु आवश्यक अतिथि शिक्षक (Guest faculty) रखने की व्यवस्था की जायेगी।
7. परीक्षाएँ होती जाएंगी तथा मूल्यांकन हेतु परीक्षा समाप्त होने का इंतजार नहीं कर उत्तर पुस्तिकाएँ समानान्तर रूप से मूल्यांकित की जाएंगी।
8. परीक्षकों/परीक्षा कार्य से संबंधितों का भुगतान नियमानुसार बिना बिलम्ब सुनिश्चित किया जाएगा।
9. आवश्यकतानुसार सायंकालीन एवं ऑन-लाईन कक्षाएँ भी आयोजित की जा सकती हैं।
10. विधिवत् पाठ योजना को भी आवश्यकतानुसार लागू किया जा सकता है, अर्थात् वांछनीय पठन-पाठन अवधि (Academic Hours) अवश्य पूरा किया जाय।
11. वॉक आउट/स्टे आउट तथा अन्य कारणों से अनुपस्थित रहने वाले परीक्षार्थियों की पुनर्परीक्षा नहीं होगी।
12. छात्र/छात्राओं की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी, 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति रखनेवाले छात्र/छात्राओं को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जायगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
बैद्यनाथ यादव,  
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 553-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>